

राष्ट्रीय एकता दिवस

लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष में देशभर में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष में मंडल कार्यालय के आदेशानुसार रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतलाम में सरदार पटेल के जीवन पर केंद्रित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय के सभागार में किया गया इसमें छात्रों ने बढ चढ कर भाग लिया जिसमें प्रथम स्थान आर्यन हुसैन कक्षा 10 ब दूसरा स्थान विनायक शर्मा कक्षा 9 ब एवम तीसरा स्थान खुशबू खान कक्षा 11 अ रही। प्रश्नोत्तरी के पश्चात छात्रों के बीच सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवम कृतित्व पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का अगला आयोजन चित्रकला प्रतियोगिता था।

इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के लगभग 30 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता दर्ज की और अनेकता में एकता विषयक चित्र बनाए । इनमें ममता सिंह पुत्री विजेंद्र सिंह कक्षा 9 ब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, चंचल नागोरा पुत्री नरेंद्र नागौर कक्षा 9 ब ने दूसरा स्थान प्राप्त किया एवं निशा आर्य पुत्री प्रताप राम आर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी सृजनात्मकता को आयाम दिया। साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा विद्यालय के मुख्य प्रांगण में एक आकर्षक रंगोली भी बनाई गई।



आयोजन की अगली कड़ी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजित की गई, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के लगभग 17 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता दर्ज । इनमें मेहविश अली कक्षा 8 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हुदा खान कक्षा 11 ब ने दूसरा स्थान प्राप्त किया एवं मुस्कान बाथम कक्षा 9 वीं ब ने तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय

दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस कार्यक्रम में समस्त विद्यालय परिवार ने उत्साह से भाग लेकर अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया। प्राचार्य ने कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी छात्रों एवम स्टाफ को बधाईयां दी।

